



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 998) पटना, बुधवार, 2 सितम्बर 2015

सं0 वि0(27) पे0 को0 (विविध)-152/13-1090/वि0  
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,  
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,  
सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 01 सितम्बर 2015

**विषय :-** 01.01.2006 से पूर्व पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.2009 एवं संशोधित संकल्प संख्या-1155 दिनांक 08.08.2015 कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान को लेकर 01.01.2006 के पूर्व के राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों में भ्रांति की स्थिति है । उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के लिए निर्धारित वेतनमान का 01.01.2006 को छटे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में उक्त पद के प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड-पे में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का दावा किया जाता है। पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का यह दावा संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.9.09 की कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान के अनुरूप नहीं है । ऐसे मामलों में विभिन्न कोषागारों/बैंकों से भी दिशा-निर्देश की माँग की जाती है ।

2. वित्त विभाग में 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में एक स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरांत राज्य के

पेंशनरों/परिवार पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण एवं विभागों/ कोषागारों की कठिनाइयों के समाधान के लिए निम्नरूपेण स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है :-

(i) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन समेकन वित्त विभागीय संकल्प संख्या 820 दिनांक 23.9.2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 की सारणी के अनुसार किया जाए।

(ii) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन समेकन के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.09 की कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन के संबंध में है।

(iii) 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन समेकन/पुनरीक्षण के क्रम में सेवानिवृत्त पेंशनरों का सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन का वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होगा। इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान का संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.09 की कंडिका-2(V) में किए गए प्रावधान के आलोक में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए उक्त संकल्प के अनुलग्नक-3 में अपेक्षित सूचनाएँ अंकित कर पेंशनर/परिवार पेंशनर अपने विभाग/कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे। प्रशासी विभाग/कार्यालय उनके आवेदन को विभाग/कार्यालय में संधारित संबंधित पेंशनरों/परिवार पेंशनरों (मृत सरकारी सेवक) के सेवा अभिलेख/ इतिहास के आधार पर सेवानिवृत्ति को धारित पद के वेतनमान का 01.01.2006 को निर्धारित प्रतिस्थानी पे-बैंड के प्रारंभिक वेतन एवं ग्रेड-पे के आधार पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन की गणना करेगा। यदि न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन/परिवार पेंशन संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन से ज्यादा है तो संबंधित विभाग/कार्यालय वैसे पेंशनर/परिवार पेंशनर का संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत करने के लिए महालेखाकार, बिहार को पत्र लिखेगा।

विश्वासभाजन,  
एच0 आर0 श्रीनिवास,  
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 998-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>